

To

July 30, 2021

The Manager (Listing Department)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra East
Mumbai -400051

NSE Scrip Symbol: RAJMET

Sub: Newspaper Advertisement – Annual General Meeting

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement regarding Annual General Meeting Intimation which has been published in English newspaper ie. Business Standard - English and in Hindi newspaper ie. Business Standard - Hindi dated July 29, 2021.

Copy of said newspaper advertisement are also available on our website at www.rajnandinimetal.com.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You,

FOR RAJNANDINI METAL LIMITED

For Rajnandini Metal Limited

Managing Director

Het Ram Sharma
Managing Director
DIN: 02925990
H. No. 307, Sector 21C,
Faridabad, Haryana 121012



RAJNANDINI METAL LIMITED

Corporate Office : Plot No. 344, Sector 3, Phase -II, IMT Bawal 123501 (Haryana) (INDIA)
Tel.: 01284-264194, 264196, 264197, 264198
E-mail : info@rajnandinimetal.com, hrsharma@rajnandinimetal.com
Website : www.rajnandinimetal.com
CIN : L51109HR2010PLC040255



**TRUST
MUTUAL
FUND**

— CLEAR • CREDIBLE • CONSISTENT —

TRUST Asset Management Private Limited

CIN: U65929MH2017PTC302677

Regd. Office: 801, 8th Floor, G - Block, Naman Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051
Phone: 022 - 6274 6000; 1800 267 7878 (Toll-Free No.) | **E-mail:** info@trustmf.com | **Website:** www.trustmf.com

Notice No. 11/ 2021

Annual Report for Scheme of TRUST Mutual Fund (“the Fund”)

NOTICE is hereby given to all investor(s)/Unit holder(s) of TRUST Mutual Fund (“Fund”) that in accordance with Regulation 54 & 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018 on ‘Go Green Initiative in Mutual Funds’, the Annual Report for the Scheme of the Fund for the year ended March 31, 2021 has been hosted on the website of the Fund viz. www.trustmf.com and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com

Investors may accordingly view / download the reports from the website of the Fund.

In case if an investor wishes to obtain a physical copy of the annual report, a request may be made through any of the following modes:

1. Telephone: Give a call at our toll free number at 1800 267 7878
2. Email: Send an email to investor.service@trustmf.com from the registered e-mail id
3. Letter: Submit a letter at any of the AMC Offices or KFin Investor Service Centres, list available at www.trustmf.com

Unitholders/investors are requested to take note of the above.

For TRUST Asset Management Private Limited
(Investment Manager to Trust Mutual Fund)

Sd/-
Authorised Signatory


Place: Mumbai

Date: July 29, 2021

**Mutual Fund investments are subject to market risks,
read all scheme related documents carefully.**



LIC HFL
LIC HOUSING FINANCE LTD



HAPPY HOME

LOAN OFFER

6.66%

Onwards

► *Exclusive Griha Varishtha Home Loan scheme for retired pensioners and salaried individuals having pension benefit loan tenure upto attainment of 80 years of age*

*Terms & Conditions Apply

Limited period offer

LIC Housing Finance Ltd.

CIN: L65922MH1989PLC052257

Registered Office: Bombay Life Building, 2nd Floor, 45/47, Veer Nariman Road, Fort, Mumbai-400001 Tel: +91-22-22049919, 22049799, Fax: +91-22-22049682
Corporate Office: 131, Maker Tower, "F" Premises, 13th Floor, Cuffe Parade, Mumbai-400005
 Tel: +91-22-22178600, Fax: +91-22-22178777, Email: lichousing@lichousing.com, Website: www.lichousing.com

STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021				
(₹ in Crore)				
Sr. No.	Particulars	Standalone Results		
		Quarter ended June 30, 2021	Quarter ended June 30, 2020	Year ended March 31, 2021
		Reviewed	Reviewed	Audited
1	Total Income from Operations	4,859.04	4,977.49	19,847.69
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	192.93	1,017.67	3,348.57
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	192.93	1,017.67	3,348.57
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	153.44	817.48	2,734.34
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	156.70	816.43	2,731.94
6	Paid up Equity Share Capital	100.99	100.99	100.99
7	Earning Per Share (of ₹ 2/- each) * (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted	3.04 *	16.20 *	54.18
	* (The EPS for the Quarters are not annualised)			

Notes

1 The figures for the previous periods have been regrouped / reclassified / restated wherever necessary in order to make them comparable with figures for the current period ended June 30, 2021.

2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Quarterly / Annual Standalone Financial Results are available on the Stock Exchanges - National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange(BSE) websites www.nseindia.com , www.bseindia.com and Company's website www.lichousing.com.

CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021				
(₹ in Crore)				
Sr. No.	Particulars	Consolidated Results		
		Quarter ended June 30, 2021	Quarter ended June 30, 2020	Year ended March 31, 2021
		Reviewed	Reviewed	Audited
1	Total Income from Operations	4,867.22	4,986.01	19,880.22
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	193.77	1,021.77	3,365.13
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	193.77	1,021.77	3,365.13
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	151.07	824.08	2,741.13
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	154.51	822.44	2,740.29
6	Paid up Equity Share Capital	100.99	100.99	100.99
7	Earning Per Share (of ₹ 2/- each)* (for continuing and discontinued operations)	*2.99	*16.33	54.32
	Basic & Diluted *(The EPS for quarters is not annualised)			

Notes

1 The figures for the previous periods have been regrouped/ reclassified/ restated wherever necessary in order to make them comparable with figures for the current period ended June 30, 2021.

2 The above is an extract of the detailed format of Annual Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchanges - National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE) websites www.nseindia.com, www.bseindia.com and Company's website www.lichousing.com.

Place : Mumbai
Date : July 29, 2021

For and behalf of the Board
Sd/-
Y. Vishwanatha Gowd
Managing Director & CEO

		मार्वल विनाइल्स लिमिटेड [चीशाईएन: एल74899डीएल1985पीएलसी021085] पंजीकृत व कारपोरेट कार्यालय: जी-73, कनाट सर्सस, नई दिल्ली-110001 फोन : +91 (11) 45306666, फैक्स: +91 (11) 45306677 ई-मेल: cs@marvelvinyls.com, वेबसाइट: www.marvelvinyls.com			
31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए एकल लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार (रु. लाखों में, प्रति शेयर बाजार को छोड़कर)					
क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	
		31.03.2021 (लेखापरीक्षित)	31.12.2020 (अनलेखापरीक्षित)	31.03.2020 (लेखापरीक्षित)	31.03.2021 (लेखापरीक्षित)
1	कुल आय	7893.12	8369.91	5,763.21	24,789.36
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पूर्व)	346.21	298.02	48.02	864.80
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात)	346.21	298.02	48.02	864.80
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात)	188.34	223.02	122.76	576.93
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल)	187.62	224.03	102.86	579.23
6	इक्विटी शेयर पूंजी	497.16	497.16	497.16	497.16
6	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)			2886.06	2306.84
7	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक के) (परिचालन निरंतरता व अनिरंतरता हेतु)- मूल: तदनुसार:	4.43 4.43	5.24 5.24	2.89 2.89	13.56 13.56
					8.97 8.97

टिप्पणी: ऊपर सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में शेयर किए गए तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप कंपनी की वेबसाइट www.marvelvinyls.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट: www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

हिले मार्वल विनाइल्स लिमिटेड
हस्ता./-
पवन कुमार चावला
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 00101197

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 28 जुलाई, 2021

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कच्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)	
जब कि, इंडियानुबलस हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते ओहोहालासी ने सिवियोरिडॉइस्ट्रेट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिवियोरिडॉइस्ट्रेट (एफकोसिमेंट) रूलस, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कानून द्वारा शासित नी रावथ और शनि यावत को 19.04.2021 को सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOD000361513 को राशि रु.7,31,794/- (रुएक सात लाख इकतीस हजार सात सौ चौरानवे मात्र) और 31.03.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना को प्राप्ती की तारीख से सस्य 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आह्वात करने हेतु अध्याधान सूचना जारी की थी। भराशि चुकता करने में कर्जदारों के अफसल रहने पर एतद्ग्राह्य कर्जदार और सस सामान्य अर्थों को सूचना दी जाती है कि, ओहोहालासी ने उक्त कानून की धारा 13 के उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिवियोरिडॉइस्ट्रेट (एफकोसिमेंट) रूलस, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.07.2021 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्जदार और सामान्यतः जनता को एतद्ग्राह्य सूचना के साथ सौदा नहीं करने के लिए साधनावन किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशी रु.7,31,794/- (रुएक सात लाख इकतीस हजार सात सौ चौरानवे मात्र) 31.03.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियानुबलस हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा। उपारक्तोंका का ध्यान अधिनियम को 19.04.2021 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपबन्ध साम्य की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण आवासीय प्लैट नं.2 (एल.आई.जी.)। सुपर कवर्ड एरिया 450 स्क्.फीट जो 41.805 स्क्.मी.के बराबर है, अपर ग्राउन्ड फ्लोर (पीछे की तरफ) पर, बिना रूफ राइट्स के, प्लॉट नं.135 पर बसा, सेक्टर - 5 में स्थित, आवासीय कॉलनी वैशाली नं., तहसील और जिला गाज़ियाबाद -201010, उपर प्रेषण सही-- दिनांक: 27.07.2021 प्राधिकृत अधिकारी, स्थान :गाज़ियाबाद इंडियानुबलस हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड	



राजनंदिनी मेटल लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 3ई-17, सी.बी.ए.आई.टी. फ्लाइंग मार्ग - 121001 हरियाणा (इंडिया)
निगमित कार्यालय: प्लॉट नं. 344, सेक्टर 3 क्रेन-1, आई.आई.टी. बस्स - 123501 हरियाणा (इंडिया)
Phone: 01284-264194 | **Email:** info@rajnandinimetal.com
Website: www.rajnandinimetal.com | **CIN:** L11059HR2010PLC0040255

शेयरधारकों को सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राजनंदिनी मेटल लिमिटेड ("कंपनी") की 11वीं (ग्यारहवीं) वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") निगमित मामलों के मंत्रालय दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 (एम्सीएफ परिचयों के रूप में समग्र रूप से संदर्भित) द्वारा जारी साधारण परिचयों और भारतीय प्रभूति विनियम बोर्ड ("सेबी") परिचय दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुसार नए एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसूचित व्यापार का लेन-देन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑनलाइन विधियों माध्यम से ("ऑनलाइन") के माध्यम से शुक्रवार, 27 अगस्त, 2021 को दोपहर 01.30 बजे आयोजित की जाएगी, कंपनी ने उन सभी सदस्यों को जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट (रजिस्ट्रार) द्वारा डिपोजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं, को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम 28 जुलाई, 2021 को वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के सहित 11वीं एजीएम की सूचना भेजी है। एजीएम की सूचना की मौक्तिक प्रतियोगिता भेजने की आवश्यकता एम्सीएफ परिचय और सेबी परिचयों के तहत समाप्त कर दी गई है।

11वीं एजीएम की सूचना और व्याख्यात्मक विवरण के सहित कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कंपनी की वेबसाइट www.rajnandinimetal.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। इसकी एक प्रति नेशनल सिमिक्रेडिट डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdcl.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि

- सदस्यों को वोटिंग अधिकार कट-ऑफ—डेट अर्थात् शुक्रवार, 20 अगस्त, 2021 तक कंपनी की कुलता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के अनुपात में होगा। एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ डेट तक सदस्य / लाभार्थी व्याप्तियों के रजिस्टर में दर्ज नहीं है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा पाने के हकदार होगा और कट-ऑफ डेट तक सदस्य न होने वाले व्यक्ति एजीएम की सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से देखें।
- एजीएम की सूचना में दिनांक ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की प्रक्रिया व तरीका और एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश भी शामिल हैं।
- सदस्यों के रजिस्ट्रार और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तिकाएं कंपनी के उद्देश्य के लिए शामिल हैं, 21 अगस्त, 2021 से शुक्रवार, 27 अगस्त, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।
- रिमोट ई-वोटिंग की शुरूआत मंगलवार, 24 अगस्त, 2021 को सुबह 9.00 बजे होगी और शुक्रवार, 26 अगस्त, 2021 को सुबह 5.00 बजे समाप्त होगी। उक्त तिथि व समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- जिन सदस्यों के ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, उससे नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाकर अपने को पंजीकृत करने का अनुश्रुति किया जाता है:
 - मौक्तिक मोड में अपने वोटों के शेयरधारक: मौक्तिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन्होंने अपने ई-मेल पते अपडेट नहीं किए हैं से कंपनी अर्थात् बिग शेयर सर्विसेज प्रा. लि. के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को bssdelhi@bigshareonline.com पर लिखकर शेयरधारक का नाम व पता बताते हुए हस्ताक्षरित वोटों की प्रतिलिपि, शेयर प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि प्रति (फ्रंट व बैक), पैर का कटौती एवं—सत्यापित प्रति, और शेयरधारक के रूके के समर्थन में किसी दस्तावेज (अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस, चुनाव पत्र/पासपोर्ट) की खं— सत्यापित प्रतिलिपि के साथ अपने ई-मेल अपडेट करने का अनुरोध।
 - गैर मौक्तिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारक: शेयरधारकों से संबंधित डिपॉजिटरी प्रमाणिका (पी) के साथ अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत करने का अनुरोध है। ई-मेल पते रजिस्ट्रार करने संबंधी पूछताछ / समस्या के लिए, शेयरधारक बिग शेयर सर्विसेज प्रा. लि. को bssdelhi@bigshareonline.com पर लिखकर सकते हैं।

राजनंदिनी मेटल लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षर

प्रबंधक निदेशक

डीआईएन: 02925960

स्थान: फरीदाबाद

दिनांक: 29.07.2021

KSOLVES
Emerging Ahead Always

केएसओएलवीईएस इंडिया लिमिटेड

CIN: U72900DL2014PLC269020

पंजीकृत कार्यालय: एच. नं.-8/1, प्लॉट नं.व्हीनकाव, इंदिरा गेट-110030
कोईरोट कार्यालय: तीसरा नं. वी-4 ओपन नं. 301, वी.वी.डी रोड, सेक्टर 63, मोहा, जम प्रवेश-201301
टेलीफोन: 0120 416 3248; वेबसाइट: www.ksolves.com; ई-मेल: cs@ksolves.com

पोस्टल बैलट नोटिस

कंपनी के सदस्यों को एक्टुआला सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) निम्न, 2014 के अगस्त 20, 2012 ("निर्देश") के साथ निम्न कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं 110 तथा सभी अन्य प्रावधानों ("अधिनियम") के तहत मत के लिए उस पर कोई आवश्यक निर्णय या पुनःव्यवस्थापन प्रक्रिया के अनुष्ठान में या निम्न मामले मालाल द्वारा निर्धारित दिनांकित के अनुसार जमाकृत संकलन नं. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020 और 39/2020 मामले: दिनांक 08 अगस्त 2020, 13 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020 एवं 31 अगस्त 2020 ("प्रमुख संकलन") और संकेत (सूचीबद्ध बाजारों पर अद्वितीयक आवेदनपत्रों) निम्नलिखित, 2015 ("बीबी एफओआईडी प्रक्रिया"), भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा जारी केंद्रीय निर्देश 2012-2013 के प्रावधानों के अधिनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार न उच्च न्यायाधीश के द्वारा-साथ ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट के संवादात्मक रूप से प्रत्यक्ष, 29 जुलाई, 2021 को निर्धारित यात्रा को बाजार जमा मत के लिए निर्देशों की समझौता लेख पर प्रत्यक्ष, 29 जुलाई, 2021 को निर्धारित पोस्टल बैलट नोटिस ("नोटिस") के साथ वास्तविक विचार और निर्देश ई-वोटिंग निर्देशों को उस सभी सदस्यों के पास केंद्रित ई-वोट के माध्यम से प्रत्यक्ष किए गए का कार्य कर रहा है किन्ना ई-मेल पर ("निर्दिष्ट विचार") नतीजा 28 अगस्त, 2021 को पण्यम संकलन के अनुसार काल ई-वोट पर और शेयर ट्रेडिंग एंटर पर उनके संबंधित डिवाइसों, डिवाइसों पर निर्धारित ("डीपी") के साथ पंजीकृत है, एवं निम्नक नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिवाइसों द्वारा अनुसूचित लयायती मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं। यह नोटिस कंपनी के वेबसाइट (www.ksolves.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.nseindia.com) और स्टॉक डिवाइसों पर निर्धारित ("डिवाइस") लिमिटेड की वेबसाइट (www.evotingindia.com) में भी उपलब्ध है।

कोविड-19 महामारी फैलने के कारण एवं एसीसीएन की आवश्यकता के अनुसार, पोस्टल बैलट नोटिस की भौतिक प्रक्रिया के साथ पोस्टल बैलट एवं प्री-पेय निम्नकृत प्रत्यक्ष एवं पोस्टल बैलट के लिए सदस्यों के पास नहीं भेज जाएगा एवं सदस्यों को सेक्टर डिवाइसों पर निर्धारित ("डीपी") लिमिटेड ("सीडीएसआई") द्वारा प्रदान की गई केंद्रित ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत या अतीव्यक्तिगत सूचित करनी होगी। नोटिस की अधिनियम, 31 जुलाई, 2021 (सबूक 9.00 बजे आरंभ) शुरू होगी एवं रजिस्टर, 29 अगस्त, 2021 (शाम 5.00 बजे आरंभ) ("द्वितीय दिनांक") समाप्त होगा। संकेत बाद निर्देशों के लिए निर्देश ई-वोटिंग मोडल को बंद कर दिया जाएगा। किसी निर्देश पर सदस्य द्वारा जमा किए गए वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्यों को तत्पश्चात उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

निर्देश ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देशों में दी गई हैं। सदस्यों से अनुमति ग्रहण जाता है कि अपनी व्यक्तिगत या अतीव्यक्तिगत वोट करने के लिए निर्देशों में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें एवं रजिस्टर, 29 अगस्त, 2021 को शाम 5.00 बजे (आरंभ) तक निर्देशों की समझौता लेख में उपलब्ध नहीं, निर्देश ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दर्ज करें। सदस्यों के लिए का अधिनियम, निर्दिष्ट विचार को कंपनी के पोस्टल बैलट शेर वी.डी में उनके द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया के समुपस्थान में होगा। निर्दिष्ट विचार को एक व्यक्ति, निम्नक नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिवाइसों द्वारा अनुसूचित लयायती मालिकों को एक्टुआला में दर्ज है (यह सदस्य संकेत निर्देश अना ई-मेल तथा कंपनी या डिवाइसों/डिवाइसों पर निर्धारित के साथ पंजीकृत न रहने के कारण, नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है) एवं निर्देश ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का अधिकार होगा। कौन व्यक्ति जो निर्दिष्ट विचार को सदस्य नहीं रह जाता है, उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा एवं वह इस निर्देश को केवल एक सूचना के रूप में ग्रहण करेगा।

निर्देशमूला नोटिस में स्वच्छ एवं पारदर्शी रूप में निर्देश ई-वोटिंग के माध्यम से प्रकटित करने के संवादात्मक रूप की अतिम सुचना (संदर्भ नं.-421544), संदेश एवं एंटर एंटर के पार्श्व, प्रकटित सदी लेखापत्र को क्रेडिट/डिबिट को नोटिस में प्रकट किया है।

कंपनी सदस्यों को निर्दिष्ट विचार को शेयर खरीदें एवं एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की लिए के बाद इस नोटिस को प्राप्त नहीं है, यदि निर्देशों में निर्दिष्ट निर्देशों का पालन करने एवं एवं लीगिटीम आईडी एवं पारदर्शी प्राप्त कर सकते हैं या एक अनुभव वेबसाइट evoting.ksolves.com पर (सीडीएसआई डिवाइसों पर निर्धारित ई-वोटिंग के माध्यम से एवं एवं evoting@nsdl.co.in पर (एक्टुआला डिवाइसों पर निर्धारित ई-वोटिंग के माध्यम से) भेज सकते हैं। यदि आपने अपना ई-मेल /मोबाइल नं. कंपनी/डिवाइसों के साथ पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

1. डिवाइस निर्देशों के लिए-कृपया अपने संबंधित डिवाइसों पर निर्धारित ("डीपी") के पास अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. अद्यतन करें।
2. व्यक्तिगत निर्देश शेरधारकों के लिए-कृपया अपने संबंधित डिवाइसों पर निर्धारित ("डीपी") के पास अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. अद्यतन करें या जो डिवाइसों के माध्यम से ई-वोटिंग करने समर्थ असाई करें।
3. पोस्टल बैलट के पारदर्शी की योजना समाप्त, 30 अगस्त, 2021 को शाम 5.00 बजे तक (आरंभ) की जाएगी।
4. एक्टुआला निर्देशों के साथ घोषित प्रमाणित जमाकृत और इंडिया लिमिटेड को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर वॉल्यूम में सूचीबद्ध है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के वेबसाइट www.ksolves.com एवं सीडीएसआई की वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर भी प्रमाणित अपलोड किए जायें।
5. यदि निर्देश ई-वोटिंग सिस्टम के संबंध में कोई पुष्टता है या सीडीएसआई ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग के विषय में कोई समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@csindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं या 022-23058738 एवं 022-23058542/43 पर संकेत कर सकते हैं।
6. यदि एक्टुआला निर्देश ई-वोटिंग के विषय में कोई पुष्टता या समस्या है, तो आप एक्टुआला निर्देशमूला को evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 और 1800 224430 पर कॉल कर सकते हैं।
7. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटों के लिए प्राप्त सूचना के संबंध में सभी शिकायतों को यहाँ शिकायत किया जा सकता है। श्री राकेश खन्ना, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसआई), स्टॉक डिवाइसों पर निर्धारित ("डीपी") लिमिटेड, एच. नं. 25/81 मोहा, तीसरा प्लॉट नं. वी-4 ओपन नं. 301, वी.वी.डी रोड, सेक्टर 63, मोहा, जम प्रवेश-201301, एवं 022-400013 या helpdesk.evoting@csindia.com पर ई-मेल भेज सकते हैं या 022-23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं।

केएसओएलवीईएस इंडिया लिमिटेड की ओर से

निर्देश: 29 जुलाई, 2021

हस्ता/ई-मेल

Dudhsagar Dairy
India's Largest Co-operative Dairy

Mehsana District Co-operative Milk Producers' Union Ltd.
Post Box No.1, Highway, Mehshana-384002 Phone.02762-253201, Fax:2532422

Tender Notice

Sealed tenders are invited for supply of Casual Manpower for our Dudhsagar National- Rajasthan, Haryana & Uttar Pradesh Operations for the period of two years.

Tender No.	Descriptions	Start Date	Close Date
M-12	Supply of Un-Skilled/Semi-Skilled/Skilled/Highly Skilled Casual Manpower for Dudhsagar National – Rajasthan, Haryana & Uttar Pradesh Operations	02.08.2021	07.08.2021

For details kindly refer tender document available at Dudhsagar National, 2nd Floor, Malwa Tower, Plot no. A-13 & 37, Near Khatipura Circle, Hanuman Nagar, Jaipur-302021, Rajasthan. To accept or reject the tender shall be at the sole discretion of the undersigned without assigning any reason whatsoever.
Date: 28.07.2021

I/C Managing Director

Indian Bank
11, Marudhar Vihar, Indian Bank, Hanuman Nagar, Jaipur, Rajasthan-302021

Possession Notice (For Immovable Property) (Under Rule-9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas:- The undersigned being the authorized officer of the Indian Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 9.4 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated **27.03.2021** calling upon the Borrower/Guarantor/Mortgagor:- **1. Mr. Ram Avtar Sharma S/o Chhagan Lal Sharma (Borrower & Mortgagor), 2. Smt. Poonam Sharma W/o Mr. Ram Avtar Sharma (Borrower) 3. Sh. Vinay Kumar Jangli S/o Prahlad Kumar Jangli (Guarantor)** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 29,00,049.98 (Rupees Twenty Nine Lakh Forty Nine and Paise Ninety Eight Only) due and outstanding as on 31.03.2021** along with future interest, cost, expenses and charges within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower/Guarantor/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor/Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules, on this **27th day of July of the year 2021**. The Borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for **Rs. 29,00,049.98 (Rupees Twenty Nine Lakh Forty Nine and Paise Ninety Eight Only) due and outstanding as on 31.03.2021** along with future interest, cost, expenses and charges.

The Borrower/Guarantor/Mortgagor attention is invited to provisions of section 13(8) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that Part and Parcel of the property consisting of:- Residential House situated Plot No. 121, Riddhi Siddhi Nagar, Kalwar Road, Harnathpura, Hatoj, Jaipur-302012, measuring 132.50 Sq. Yrd, registered in the name of Mr. Ramavtar Sharma S/o Mr. Chhagan Lal Jangli vide Regd. Lease Deed No. 201703015102208 dated 28.04.2017.

Bounded:- East: Plot No. 120, West: Plot No. 122, North: Plot No. 140 & 141, South: Road.

Chief Manager & Authorised Officer
Indian Bank

Ansals Housing Limited
— An ISO 9001:2015 Company —
(Formerly known as Ansal Housing & Construction Ltd.)

Regd. Office : 606, 6th Floor, Indra Prakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
Head Office : 2F-AHCL, 2nd Floor, Ansal Plaza, Sector-1, Vaishali, Ghaziabad, U.P. - 201010
E-mail : ahl@ansals.com Website : www.ansals.com CIN : L45201DL1983PLC016821

NOTICE TO SHAREHOLDERS
For Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IETF) established by the Central Government.

NOTICE is hereby given that the Company would be transferring all those equity shares on which dividends have remained unpaid/unclaimed for 7 (seven) or more consecutive years to the Demat Account of the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority"), pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as amended to date.

Complying with the requirements set out in the Rules, the Company has communicated to the concerned shareholders individually at their latest available addresses, who have not claimed their dividend for the last seven or more consecutive years i.e., for the financial year 2013-14 and onwards and whose share(s) are liable to be transferred to the Demat Account of the IETF Authority under the said Rules. The due date for the transfer of unclaimed/unpaid dividend for the financial year 2013-14 is 01st November, 2021 and the shareholders have been requested to claim the said unpaid/unclaimed dividend for the financial year 2013-14 before 21st October, 2021.

The Company has also updated the details of such shareholders along with their folio number or DP ID/Client ID and the number of shares due for transfer to Demat Account of the IETF Authority on its website at www.ansals.com. The shareholders are requested to refer to the web-link <http://www.ansals.com/corporate/list-of-unclaimed-shares.asp?links=investors> to verify the details of shares liable to be transferred to the Demat Account of the IETF Authority.

Both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IETF Demat Account can be claimed back from IETF Authority after following procedure prescribed in the Rules. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and the shares transferred to IETF Demat Account pursuant to the said Rules.

The shareholders may please note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of physical shares to Demat Account of the Authority. In respect of shares held in Demat form, requisite corporate action shall be taken.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company at its Corporate Office at Ansal Plaza Mall, 2nd Floor, Sector – 1, Vaishali, Ghaziabad, U.P. – 201010, Tel. No.: 0120-3854214, Email : sec@ansals.com, Website : www.ansals.com or Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), M/s Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi – 110058, Tel. No.: +91-11-49411000, Fax: +91-11-41410591, Email: delhi@linkintime.co.in, Website: www.linkintime.co.in.

FOR ANSAL HOUSING LIMITED
Sd/-
(S.N. Grover)
Dated: 28.07.2021
Place: New Delhi

Addl. V.P. & Company Secretary
M. No. – FCS 4055

Circle SASTRA Department, Circle Office, Harshil Tower 29, Naru Marg, Alwar, Rajasthan, Phone: 0144-2700667
E-Mail: coaltvmsd@pnrb.co.in, cs8184@pnrb.co.in

60 Days' Notice to Borrower/Guarantors/Mortgagor Annexure- I (Revised SI-4)
Date: 22.07.2021

Sh. No.	Nahar Singh S/o Sh. Ramdhani Meena, Near Hari Singh Petrol Pump, Kherli Road, Kathumar, Alwar, Rajasthan	Smt. Maya Devi W/o Sh. Nahar Singh (Co-Borrower), Near Hari Singh Petrol Pump, Kherli Road, Kathumar, Alwar, Rajasthan	Sh. Suraj Singh S/o Sh. Ramji Ranjan, Near Hari Singh Petrol Pump, Kherli Road, Kathumar, Alwar, Rajasthan
Dear Sir/Madam,	NOTICE U/S 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002.		
Reg: 233100NCD00000198 (Housing Loan) credit facilities availed by Sh. Nahar Singh S/o Sh. Ramdhani Meena and Smt. Maya Devi W/o Sh. Nahar Singh.			
You have availed the following credit facilities:			
Sr. No.	A/c No.	Facility	Balance Outstanding (as on 23.05.2021 + future interest + charges thereon w.e. 1.01.05.2021)
1.	233100NCD00000198	Housing Loan	1343107.00
Grand Total			1343107.00

Due to non payment of installment/ interest/ principal debt, the account/s has/have been classified as Non Performing Asset on 23.05.2021 as per Reserve Bank of India guidelines. We have demanded/recalled the entire outstanding together with interest and other charges due under the above facilities, vide letter dated 09.07.2021. We have also invited the guarantee vide letter dated 09.07.2021.

The amount due to the Bank as on 23.05.2021 is Rs. 1343107.00 (Rupees Thirteen Lakh Forty Three Thousand One Hundred Seven Rupees Only) Less recovery if any with further interest until payment in full (hereinafter referred to as "secured debt").

To secure the underwritten above the said facilities, Sh. Nahar Singh S/o Sh. Ramdhani Meena and Smt. Maya Devi W/o Sh. Nahar Singh have, inter alia, created security interest in respect of the following properties/assets:

Sr. No.	Facility	Security
1.	233100NCD00000198 (Housing Loan)	Equitable mortgage of a Residential house situated in front of Hari Singh Petrol Pump, Kherli Road, Kathumar, Dist. Alwar, Rajasthan

name of Sh. Nahar Singh S/o Sh. Ramdhani Meena measuring 42 sq. yd. bounded as East: Plot of Smt. Maya Devi, West: Road, North: Common Road, South: Plot of Sh. Laxman Jat.

Equitable mortgage of a Residential house situated in front of Hari Singh Petrol Pump, Kherli Road, Kathumar, Dist. Alwar, Rajasthan in name of Smt. Maya Devi W/o Sh. Nahar Singh measuring 150 sq. yd. bounded as East: Plot of Sh. Ghanashyam, West: Plot of Nahar Singh, North: Common Road, South: Plot of Sh. Laxman Jat.

We hereby call upon you to pay the amount of **Rs. 1343107.00 (Rupees Thirteen Lakh Forty Three Thousand One Hundred Seven Rupees Only)** Less recovery if any with further interest at the contracted rate until payment in full within 60 days (Sixty days) from the date of this notice. In default, besides exercising other rights of the Bank as available under Law, the Bank is intending to exercise any or all of the powers as provided under section 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (hereinafter referred to as "the Act"). The details of the secured assets/ intended to be enforced by the Bank, in the event of non payment of secured debt by you are as under:

Yours faithfully,
For Punjab National Bank AUTHORISED OFFICER

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to all the concerned that the New Delhi Branch office of **Asset Reconstruction Company (India) Ltd** has shifted from, 2nd Floor, Sethi Chambers, Plot No. 2, DDA Shopping Centre, MOR Land, New Rajinder Nagar-I, New Delhi 110060 to its new office premises at **Office no. 1008, 11th Floor, Westend Mall, District Center, Janakpuri (W) New Delhi-110058** with effect from June 28th, 2021.

For any future correspondence, you may communicate at our above mentioned address. Phone Nos. 9289119262-63-64-65-66-67

Place: New Delhi
Sd/- Authorised Officer
Asset Reconstruction Company (India) Ltd.
Dated: 30/07/2021

Arcil
CIN : U65999MH2002PLC134884, Website : www.arcil.co.in

Registered Office: The Ruby, 10th Floor, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400 028 Tel: +91 2266581300
Branch Address: Unit No. 1008, 11th Floor, West End Mall, Janakpuri District Centre, New Delhi- 110 058. Tel: 9289119262-67

यूको बैंक UCO BANK
(A Govt of India Undertaking)

परिशिष्ट IV (नियम 8 (ii)) कबजा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता, यूको बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए नियति अस्तित्व का प्रतिनिधित्व एवं पुनर्जनन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का संपादित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुयोग में कबजा – श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह एवं श्रीमती पदमा कवर पत्नी श्री पृथ्वी सिंह को मंगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र दिनांकित **12.04.2021** उक्त सूचना-पत्र की दिनांक से 60 दिनों के भीतर रुपये **10,25,284.00** (रुपये दस लाख पच्चीस हजार दो सौ चौरासी मात्र) की राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्मात किया। कबजा के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, अग्रगण्यता को एतद द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) संपादित उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुयोग में, एतस्मिन् नीचे वर्णित सम्पत्ति का कबजा दिनांक 26 जून 2021 को प्राप्त कर लिया है।

कबजा के विनिश्चयायी और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार, रुपये **10,25,284.00** (रुपये दस लाख पच्चीस हजार दो सौ चौरासी मात्र) एवं बायज के लिये यूको बैंक शाखा लालसोट जिला दोसा के प्रभार के अधीनस्थ होगा।

"अधिकांश का ध्यान प्रतिभूति अस्तित्व के मोहन के लिये उल्लेख सम्य के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

सम्पत्ति के सभी अंग एवं हिस्से जो सूत्र पत्र बार्ड 5, चामसू, जम्सूर-303901 में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 149.88 सैरजंग है सैमाप- उत्तर: लाल चन्द की संपत्ति, दक्षिण: खाली भूमि, पूर्व: रणू माली का मकान, पश्चिम: आम रास्ता

दिनांक: 26.07.2021 स्थान: लालसोट प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
600/1 University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow- 226007
(Areas of Jurisdiction Part of Uttar Pradesh)

SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION
O.A. No. 895/2020 Dated : 13.07.2021

Summons to defendant under Section 19(4) of the **RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT 1993** read with rules 12 and 13 of the Recovery Tribunal Procedure Rules 1993

Central Bank of India Vs. Sri. Devendra Singh Bisht Others
.....Applicant
.....Defendants

To
1. **Shri Devendra Singh Bisht S/o Sh. Umed Singh Bisht R/o H. No. J-179 Sector -22, 2nd Floor Noida, Gautam Budh Nagar, At Present 17/18, Windsor Flat, Ghaziabad-201014, Uttar Pradesh AUPB0346F**

2. **Smt. Sunita Bisht D/o Sri Umed Singh Bisht R/o H. No. J-179 Sector -22, 2nd Floor Noida, Gautam Budh Nagar, At Present 17/18, Windsor Flat, Ghaziabad - 201014, Uttar Pradesh AUPB0345G**

3. **M/s Annarpali Smart City Developers Pvt Ltd.** A Company duly constituted and registered under Companies Act 1956 having its registered office at 307, 3rd Floor, Nipun Tower, Plot No. 15 Community Center, Karkardooma, Delhi-110092 and corporate office at C-56/40, Sector 62, Noida, U.P. Through its Director/authorized signatory **Mr. Rajesh Malhotra**

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in Paper Book form in two sets alongwith documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on **05.08.2021 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH NEW DELHI
COMPANY PETITION NO: (CAA)-73(PB)/2021
CONNECTED WITH
COMPANY PETITION NO: ND/C.A(CAA)/8/2020
In the matter of the Companies Act, 2013;
AND
In the matter of section 230-232 of the companies act, 2013;

Pioneer Fire Protection Private Limited, a Company incorporated under the provision of the Companies Act, 1956 and having its registered office at C-55, DSIDC Industrial Complex, Tilak Nagar, Delhi-110018 and Agni Devices Private Limited (Formerly Known as Agni Instruments Engineers Private Limited), Company incorporated under under the provision of the Companies Act, 1956 and having its registered office at A-48, DDA Keshopur, Industrial Area, Vikas Puri, New Delhi-110018.

.....Petitioner Companies

NOTICE OF HEARING PETITION

A petition under section 230-232 of the Companies Act, 2013 for an order sanctioning the Scheme of Amalgamation and Amalgamation of Pioneer Fire Protection Private Limited (Petitioner Transferor Company) with Agni Devices Private Limited (Formerly Known as Agni Instruments Engineers Private Limited) (Petitioner Transferee Company) and their respective shareholders and creditors, was presented jointly by the Applicant Companies on 24th day of March, 2021 and the same is fixed for hearing before the Principal Bench New Delhi of National Company Law Tribunal on 05.08.2021.

Any person desiring of supporting or opposing the Petition should send to the petitioner Company's Legal Representative at the address mentioned below the notice of his/her intention, signed by him/her or his/her advocates with his/her name and address, so as to reach the Petitioner Company's Legal representative and the National Company Law Tribunal, Principal Bench New Delhi at Ground, 6th, 7th Floor & 8th C.G.O. Complex, Lodhi Rd, Block No. 3, New Delhi, Delhi 110003, not later than 2 days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his/her affidavit shall be furnished with such notice.

A copy of the petition will furnished by the undersigned to any person requiring the same free of charge.

Dated: 27th Day of July, 2021 **TU and CO.**
Legal Representative for Petitioners
Chartered Accountants
At D-11, 2nd Floor, Prashant Vihar, Rohini, Sector-14, Delhi-110085

Bank of Baroda
Ganahera, Pushkar, Ajmer – 305022 (Rajasthan)
Ph. 0145-2733663
Date: 16/06/2021

Notice to Borrower/Guarantor (Under Sub-Section(2) of Section 13 of The Sarfaesi Act, 2002)

To Borrower: 1. M/S Ramesh Agro Oils Prop. Ramesh Chand Sharma S/o Mr. Uday Raj, Village Peeth, Tehsil Parbatsar, Distt. Nagaur.
2. Mr. Ramesh Chand Sharma S/o Raj Prop. M/S Ramesh Agro Oils, Village Peeth, Tehsil Parbatsar, Distt. Nagaur.
Guarantor: Mr. Mukesh Kumar S/o Mr. Ramesh Chand, Village Peeth, Tehsil Parbatsar, Distt. Nagaur (Raj)

Dear Sir/Madam, **Re: Credit facilities availed by our Ganahera Branch.**

1. We refer to our letter dated 05-01-2014 and 12/08/2020 conveying sanction of various credit facilities and the terms of sanction. Pursuant to the above sanction you have availed and started utilizing the credit facilities after providing security for the same, as hereinafter stated. The present outstanding in various loan/credit facility accounts and the security interests created for such liability are as under:

Nature & Type of Facility	Limit	Rates of interest	O/s as on 31-05-2021 (Interest up to 30-04-2021)	Security Agreement with Brief Description of Securities
Over Draft (BTL)	Rs.250000/-	8.95% p.a. monthly rest	Rs2558220.00 + Further interest & other charges from 01-05-2021	Equitable Mortgage of land & building dated 09-01-2014 situated at Kh. No. 244, Village Peeth, Tehsil Parbatsar, Distt. Nagaur measuring area 1944 Sq Mt. in the name of Mr. Mukesh Kumar s/o Mr. Ramesh Chand Sharma area 1944 Sq Mt. Boundries: East: Agri land of Kharsa no 247/1 owned by Lachma Devi, West: Way and residential land situated in Kharsa no 597, North: Remaining Agri land of Kharsa No 244, South: Residential land situated in Kharsa no 597
Baroda Covid Emergency Credit Line (Term loan)	Rs. 250000/-	8.35% p.a. monthly rest	Rs 241809.00 + Further interest & other charges from 01-05-2021	
FTTL loan	Rs. 128155/-	10.10% p.a. monthly rest	Rs 63155.43 + Further interest & other charges from 01-05-2021	
Total	Rs. 2878155/-		Rs 2863184.43+ Further interest & other charges from 01-05-2021	

2. In the letter of acknowledgement of debt dated 20-06-2019 you have acknowledged your liability to the Bank to the tune of Rs. 2566192.99 as on 20.06.2019. The out standings stated above include further drawings and interest up to 31-05-2019. Other charges debited to the account are Rs.NIL. 3. As you are aware, you have committed defaults in payment of interest on above loans/outstandings for the quarter ended March 2021. You have also defaulted in payment of interest/installments of over draft loans which have fallen due for payment on—and thereafter. 4. Consequently upon the defaults committed by you, your loan account has been classified as non-performing asset on 31-05-2021 (mention date of classification as NPA) in accordance with the Reserve Bank of India directives and guidelines. In spite of our repeated requests and demands you have not repaid the overdue loans including interest thereon. 5. Having regard to your inability to meet your liabilities in respect of the credit facilities duly secured by various securities mentioned in para 1 above, and classification of your account as a non-performing asset, we hereby give you notice under sub-section (2) of section 13 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and call upon you to pay in full and discharge your liabilities to the Bank aggregating Rs.2863184.43+ Further interest & other charges from 01-05-2021 as stated in para 1 above, within 60 days from the date of this notice. We further give you notice that failing payment of the above amount with interest till the date of payment, we shall be free to exercise all or any of the rights under sub-section (4) of section 13 of the said Act, which please note. 6. Please note that, interest will continue to accrue at the rates specified in para 1 above for each credit facility until payment in full. 7. We invite your attention to sub-section 13 of the said Act in terms of which you are barred from transferring any of the secured assets referred to in para 1 above by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business), without obtaining our prior written consent. We may add that non-compliance with the above provision contained in section 13(13) of the said Act, is an offence punishable under section 29 of the Act. 8. We further invite your attention to sub section (8) of section 13 of the said Act in terms of which you may redeem the secured assets, if the amount of debt together with all costs, charges and expenses incurred by the Bank is tendered by you, at any time before the date of publication of notice for public auction/involving quotations/tender/private treaty. Please note that after publication of the notice as above, your right to redeem the secured assets will not be available. 9. Please note that this demand notice is without prejudice to and shall not be construed as waiver of any other rights or remedies which we may have, including without limitation, the right to make further demands in respect of sums owing to us.

Yours faithfully, Authorized Officer

Dynamic Portfolio Management & Services Ltd.
CIN: L74140DL1994PLC304881
Regd. Office: 916, Tower-2, Pearl Omaze Building, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034, India
Phone: (011) 47012010; E-mail: dpms.kolkata@gmail.com ; Website: www.dynamicwealthservices.co.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 11th August, 2021 at 12.30 p.m. at the registered office of the Company at 916, Tower-2, Pearl Omaze Building, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034, India, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2021 along with the Limited Review Report of the Statutory Auditors thereon as required under Regulation 33 of the said regulation.

The copy of this intimation shall also be available on the website of the Company at www.dynamicwealthservices.co.in and on the website of the BSE Limited www.bseindia.com,

For Dynamic Portfolio Management & Services Limited
Sd/-
Nidhi Agarwal
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 30th July 2021

RAJNANDINI METAL LIMITED
Regd. Office: 3E-17 B.P. N.I.T. Faridabad – 121001 Haryana (India)
Corporate Office: Plot No. 344, Sector 3 Phase II, IMT Bawal – 123501 Haryana (India)
Phone: 01284-264194 | Email: cfo@rajnandinimetal.com
Website: www.rajnandinimetal.com | CIN: L51109HR2010PLC040255

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the 11th (Eleventh) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Rajnandini Metal Limited ("the Company") will be held on Friday, August 27, 2021 at 01.30 p.m. through Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM in accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021, the Company has sent the Notice of the 11th AGM along with the Annual Report 2020-21 on Wednesday, July 28, 2021, through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent (Registrar) and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circulars.

The Annual Report 2020-21 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 11th AGM is available on the website of the Company at www.rajnandinimetal.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Members may further note that:-

- The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, 20th August, 2021. A person whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM and a person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.
- The notice of AGM inter-alia includes the process and manner of remote e-voting/e-voting and instructions for participation in the AGM.
- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 21st August, 2021 to Friday, 27th August, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.
- The remote e-voting period commences on Tuesday, 24th August 2021 at 9:00 A.M. and ends on Thursday, 26th August 2021 at 05:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- Members who have not registered their email-id are requested to register the same by following the procedure given below:

- Shareholders holding Shares in Physical Mode: Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their email address are requested to update their email address by writing to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, viz., Big Share Services Pvt. Ltd at bssdelhi@bigshareonline.com, along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested copy of the PAN Card, and self-attested copy of any document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Shareholder.
- Shareholders holding Shares in Dematerialized Mode: Shareholders are requested to register their e-mail ID with the relevant Depository Participant(s). In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Shareholders may write to Big Share Services Pvt. Ltd at bssdelhi@bigshareonline.com.

For Rajnandini Metal Limited
Sd/-
Het Ram
Managing Director
DIN: 02925990

Place: Faridabad
Date: 29/07/2021

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act), read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules), in exercise of powers conferred under Section 13 (2) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Affiliated Officer of IFL Home Finance Ltd. (IFL HFL) (Formerly known as India Infinitive Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notice under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s) amount due as on date of Demand Notice i.e. 26-July-2021 and security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Name of the Borrower(s) / Guarantor	Demand Notice Date and Amount	Description of secured asset (Immovable property)
Mr. Jitendra Sharma, Mrs. Gauri Sharma, Mr. Kalish Chand Sharma, Mens Fashion and Handcraft, Mrs. Renu Sharma (Prospect No.75914)	26-July-2021 Rs. 19,13,421/- (Rupees Nineteen Lakh Thirteen Thousand Four Hundred Twenty One Only)	All that piece and parcel of the property being: 297-A, measuring 780 Sq. ft., East Part, Ganesh Nagar, Jhotwara, Opp. Kardianni, Jaipur, Pincode: 302012, Rajasthan, India

If the said Borrowers fail to make payment to IFL HFL as aforesaid, IFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and in accordance with the said Rules, and the costs and consequences of the same shall be borne by the Borrowers. For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Ambition Tower, Plot No. D-46-B, Offices No. 307 to 312, Malvi Ka Chauraha, Agrasen Circle, Subhash Marg C-Scheme, Jaipur - 302001 and Corporate Office: IFL Tower, Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.

Date: 30-July-2021 Place: Jaipur Sd/- Authorised Officer For IFL Home Finance Limited

KSOLVES INDIA LIMITED
CIN: U72900DL2014PLC269020
Regd. Off: H. No B-8/1, Ground Floor, Saidulajab, South Delhi-110030
Corp. Off: Third Floor, B-4 Office No 301, B Block Road, Sector 63, Noida, Uttar Pradesh-201301
Tel. No: 0120 416 3248; Website: www.ksolves.com; E-mail ID: cs@ksolves.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") (including any statutory modification (s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs for inter-alia conducting postal ballot through e-voting vide General Circulars Nos. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020 and 39/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020 and December 31, 2020 respectively ("MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations"), Secretarial Standard-2 Issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, the Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice dated July 29, 2021 ("Notice") along with explanatory statement and remote e-voting instructions seeking consent of the Members for Bonus Issue of Equity Shares on **Thursday, July 29, 2021** only through e-mail to all those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository / Depository Participant ("DP") and whose names appear in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on ("cut-off date") i.e. **Wednesday, July 28, 2021** in accordance with the MCA Circulars.

The Notice is also available on Company's website (www.ksolves.com), Stock Exchange's website (www.nseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited (www.evotingindia.com).

Due to outbreak of COVID-19 pandemic and in compliance with the requirements of MCA Circulars, physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot and Members are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). Voting period shall commence on Saturday, July 31, 2021 (9:00 A.M. IST) and end on Sunday, August 29, 2021 (5:00 P.M. IST) (both days inclusive). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the Member cast vote on a resolution, Member shall not be allowed to change it subsequently.

Detailed instructions for remote e-voting are provided in the Notice. Members are requested to read the instructions carefully as set out in the Notice while expressing their assent or dissent and cast vote through remote e-voting by not later than the close of working hours at 5.00 P.M. (IST) on Sunday, August 29, 2021. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off date. A person, whose name is recorded in